

# Neh

## Chapter 13

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אֲשֶׁר	בּוֹ	כָּתוּב	וַנִּמְצָא	הָעַם	בְּאָזְנֵי	מִשֶּׁה	בְּסֵפֶר	נִקְרָא	הַהוּא	בַּיּוֹם	1
कि	उसमें	लिखा-हुआ	और-पाया-गया	लोगों-के	कानों-में	मोशे-की	पुस्तक-में-से	उन्होंने-पढ़ा	उस	दिन-को	
		<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H4672</a>		<a href="#">H0241</a>	<a href="#">H4872</a>		<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3117</a>	
		עוֹלָם:	עַד-	הָאֱלֹהִים	בְּקִהְלָ	וּמֹאֲבִי	עַמּוּנִי	יְבוּא	לֹא-		
		सदा	के-लिए	परमेश्वर-की	सभा-में	या-मोआबी	अम्मोनी	आना-चाहिए	नहीं		
		<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6951</a>	<a href="#">H4125</a>	<a href="#">H5984</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3808</a>		

उस दिन मूसा की पुस्तक का ऊँचे स्वर में पाठ किया गया ताकि सभी लोग उसे सुन लें। मूसा की पुस्तक में उन्हें यह नियम लिखा हुआ मिल: किसी भी अम्मोनी व्यक्ति को और किसी भी मोआबी व्यक्ति को परमेश्वर की सभाओं में सम्मिलित न होने दिया जाये।

וַיִּשְׂכַּר	וּבַמַּיִם	בְּלֶחֶם	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	אֶת-	קָדְמוֹ	לֹא	כִּי	2
परन्तु-भाड़े-पर-रखा-था	और-पानी-से	रोटी-से	इस्राएल-के	पुत्रों-का	-	उन्होंने-स्वागत-किया-था	नहीं	क्योंकि	
	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6923</a>	<a href="#">H3808</a>		
לְבָרְכָהּ:	הַקְּלָלָהּ	אֱלֹהֵינוּ	וַיַּהַדֵּךְ	לְקָלְלָוּ	בְּלַעַם	אֶת-	עֲלוּ		
आशीर्वाद-में	श्राप-को	हमारे-परमेश्वरने	परन्तु-पलट-दिया	उन्हें-श्राप-देने-के-लिए	बिलआम-को	-	उनके-विरुद्ध		
<a href="#">H1293</a>	<a href="#">H7045</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2015</a>	<a href="#">H7043</a>		<a href="#">H0853</a>			

यह नियम इस लिये लिखा गया था कि वे इस्राएल के लोगों को भोजन या जल नहीं दिया करते थे, तथा वे इस्राएल के लोगों को शाप देने के लिए बालाम को धन दिया 17 करते थे। किन्तु हमारे परमेश्वर ने उस शाप को हमारे लिए वरदान में बदल दिया

מִיִּשְׂרָאֵל:	עָרַב	כָּל-	וַיִּבְרְיִלוּ	הַתּוֹרָה	אֶת-	כַּשְׂמַעַם	וַיְהִי	3
इस्राएल-से	मिश्रित-भीड़-को	सब	कि-उन्होंने-अलग-किया	व्यवस्था-को	-	जब-उन्होंने-सुना	तब-हुआ	
<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0914</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H1961</a>	

सो इस्राएल के लोगों ने इस नियम को सुन कर इसका पालन किया और पराये लोगों के वंशजों को इस्राएल से अलग कर दिया।

קָרוֹב	אֱלֹהֵינוּ	בֵּית-	בְּלִשְׁכַּת	נְחֹן	הַכֹּהֵן	אֱלִישִׁיב	מִנָּה	וּלְפָנָי	4
नजदीकी-था	हमारे-परमेश्वर-के	भवन-के	कोठरियों-का	अधिकारी-था	याजक	एल्याशीब	इसके	और-इससे-पहले	
<a href="#">H7138</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3957</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0475</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H6440</a>	
								לְטוֹבִיָּה:	
								तोबियाह-से	
								<a href="#">H2900</a>	

किन्तु ऐसा होने से पहले एल्याशीब ने तोबियाह को मंदिर में एक बड़ी सी कोठरी दे दी। एल्याशीब परमेश्वर के मन्दिर के भण्डार घरों का अधिकारी याजक था, तथा एल्याशीब तोबियाह का घनिष्ठ मित्र भी था। पहले उस कोठरी का प्रयोग भेंट में चढ़ाये गये अन्न, सुगन्ध और मन्दिर के बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं के रखने के लिये किया जाता था। उस कोठरी में लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिये अन्न के दसवें भाग, नयी दाखमधु और तेल भी रखा करते थे। याजकों को दिये गये उपहार भी उस कोठरी में रखे जाते थे। किन्तु एल्याशीब ने उस कोठरी को तोबियाह को दे दिया था।

אֶת-	נְתַנִּים	לְפָנָי	הָיוּ	וְשָׁם	גְּדוּלָהּ	לְשָׂכָהּ	לוֹ	וַיַּעַשׂ	5
-	उन्होंने	पहले	रखते-थे	और-जहाँ	बड़ा	एक-कमरा	उसके-लिए	और-उसने-तैयार-किया-था	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H3957</a>			

הַלְוִיִּם	מִצְוַת	וַהֲצִיחֶר	הַתְּרוּשׁ	הַתְּנִין	וּמַעֲשָׂר	וְהַכֹּלִים	הַלְבוּנָה	הַמְּנוּחָה	
लेवीयों-को	आज्ञा-थी-देने-की	और-तेल	नई-दाखरस	अनाज-का	और-दशवाँश	और-वस्तुएँ	लोबान	अन्न-बलियों	
<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H8492</a>	<a href="#">H1715</a>	<a href="#">H4643</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H3828</a>	<a href="#">H4503</a>	
					הַכֹּהֲנִים:	וְתַרְוִמָת	וְהַשְּׂעָרִים	וְהַמְּשָׁרְתִים	
					याजकों-के-लिए	और-भेंट	और-द्वारपालों	और-गायकों	
					<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H7778</a>	<a href="#">H7891</a>	





उन्हीं दिनों यहूदा में मैंने देखा कि लोग सब्त के दिन भी काम करते हैं। मैंने देखा कि लोग दाखमधु बनाने कि लिए अँगूरों का रस निकाल रहे हैं। मैंने लोगों को अनाज लाते और उसे गधों पर लादते देखा। मैंने लोगों को नगर में अँगूर, अंजीर तथा हर तरह की वस्तुएँ ले कर आते हुए देखा। वे इन सब वस्तुओं को सब्त के दिन यरूशलेम में ला रहे थे। सो इसके लिए मैंने उन्हें चेतावनी दी। मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें सब्त के दिन खाने की वस्तुएँ कदापि नहीं बेचनी चाहिए।

בְּשַׁבָּת	וּמִכְרִים	מִמָּכָר	וְכָל-	דָּאג	מִבְּיָאִים	כֹּה	יִשְׁבּוּ	וְהַצָּרִים	16
सब्त-के-दिन	और-बेचते-थे	माल	और-सब-प्रकार-का	मछली	जो-लाते-थे	उसमें	वहाँ-रहते-थे	और-सोर-के-लोग	
<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H4376</a>	<a href="#">H4377</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1709</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H6876</a>	

וּבִירוּשָׁלַם:	יְהוּדָה	לְבָנָי
और-यरूशलेम-में	यहूदा	के-पुत्रों-को
<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H3063</a>	

यरूशलेम में कुछ सीरी नगर के लोग भी रहा करते थे। वे लोग मछली और दूसरी तरह की अन्य वस्तुएँ यरूशलेम में लाया करते और उन्हें सब्त के दिन बेचा करते और यहूदी उन वस्तुओं को खरीदा करते थे।

אֲשֶׁר	הָיָה	הָרַע	הַדְּבָר	מָה-	לָהֶם	וְאִמְרָה	יְהוּדָה	חֲרִי	אֵת	וְאִיָּבָה	17
जो	यह	बुरी	बात	क्या-है	उनसे	और-कहा	यहूदा-के	प्रधानों	से	और-मैंने-झगड़ा-किया	
	<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H4100</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H2715</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H7378</a>	

אֲתָם	עֲשִׂים	וּמַחֲלִילִים	אֵת-	יוֹם	הַשַּׁבָּת:
तुम	करते-हो	और-जिससे-तुम-अपवित्र-करते-हो	को	दिन	सब्त-के
			<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7676</a>

मैंने यहूदा के महत्त्वपूर्ण लोगों से कहा, कि वे ठीक नहीं कर रहे हैं। उन महत्त्वपूर्ण लोगों से मैंने कहा, "तुम यह बहुत बुरा काम कर रहे हो। तुम सब्त के दिन को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम सब्त के दिन को एक आम दिन जैसा बनाये डाल रहे हो।

הַרְעָה	כָּל-	אֵת	עָלֵינוּ	אֵלֵינוּ	וַיִּבֹא	אֲבֹתֵיכֶם	עָשׂוּ	כֹּה	הָלֹא	18
विपत्ति	सारी	को	हम-पर	हमारे-परमेश्वर-ने	और-क्या-नहीं-लाया	तुम्हारे-पूर्वजों-ने	किया	ऐसा-ही	क्या-नहीं	
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0001</a>		<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H3808</a>	

לְחַלֵּל	יִשְׂרָאֵל	עַל-	חַרוֹן	מוֹסִיפִים	וְאֵתָם	הַזֹּאת	הָעִיר	וְעַל	הַזֹּאת
अपवित्र-करके	इसाएल	पर	क्रोध	और-बढ़ाते-हो	और-फिर-भी-तुम	इस	नगर	और-इस-पर	यह
	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H2063</a>			<a href="#">H2063</a>

אֵת-	הַשַּׁבָּת:	פ
को	सब्त	फ
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7676</a>	

तुम्हें यह ज्ञान है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ही काम किये थे। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने हम पर और हमारे नगर पर विपत्तियाँ भेजी थीं और विनाश ढाया था। अब तुम लोग तो वैसे काम और भी अधिक कर रहे हो, जिससे इसाएल पर वैसे ही बुरी बातें और अधिक घटेंगी क्योंकि तुम सब्त के दिन को बर्बाद कर रहे हो और इसे ऐसा बनाये डाल रहे हो जैसे यह कोई महत्त्वपूर्ण दिन ही नहीं है।"

אֲשֶׁר	וְאִמְרָה	הַדְּלָתוֹת	וַיִּסְגְּרוּ	וְאִמְרָה	הַשַּׁבָּת	לְפָנַי	וּרְשָׁלַם	שְׁעָרַי	צָלְלוּ	כְּאֲשֶׁר	וַיְהִי	19
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H5462</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H6751</a>		<a href="#">H1961</a>	

לֹא-	הַשְּׁעָרִים	עַל-	הָעִמּוּדָתַי	וּמִנְעָרַי	הַשַּׁבָּת	אֶחָד	עָד-	יִפְתְּחוּם	לֹא
नहीं	फाटकों	पर	मैंने-खड़ा-किया	और-मेरे-सेवकों-में-से	—	—	—	—	—
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8179</a>		<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H7676</a>		<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H3808</a>

הַשַּׁבָּת:	בְּיוֹם	מִשָּׂא	יָבֹא
सब्त-के	उस-दिन	बोझ	कोई-लाया-जाए
<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H0935</a>

सो हर शुक्रवार की शाम को साँझ होने से पहले ही मैंने यह किया कि द्वारपालों को आज्ञा देकर यरूशलेम के द्वार बंद करवा कर उन पर ताले डलवा दिये। मैंने यह आज्ञा भी दे दी कि जब तक सब्त का दिन पूरा न हो जाये द्वार न खोले जायें। कुछ अपने ही लोग मैंने द्वारों पर नियुक्त कर दिये। उन लोगों को यह आदेश दे दिया गया था कि सब्त के दिन यरूशलेम में कोई भी माल असबाव न आने पाये इसे सुनिश्चित कर लें।

וּשְׂתָּיִם:	פָּעַם	לִירוּשָׁלַם	מִחוּץ	מִמָּכָר	כָּל-	וּמִכְרִי	הַחֲכָלִים	וַיְלִינוּ	20
या-दो	एक-बार	यरूशलेम-के	बाहर	माल	सब-प्रकार-के	और-बेचने-वाले	व्यापारी	और-ठहरे	
<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6471</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H4465</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4376</a>	<a href="#">H7402</a>		



הָלֹאָהּ 26  
 על-דְּבָרָה אֵלֶּהָ חָטָאָה שְׁלֹמֹה מְלִיךָ יִשְׂרָאֵל וּבְנֵי הָרָבִים לֹא-  
 नहीं बड़ी और-बहुत-सी-जातियों-में इस्राएल-के राजा सुलैमान-ने पाप बातो इन्हीं-के-द्वारा क्या-नहीं  
 H3808 H3478 H4428 H8010 H2398 H0428 H3808

הָיָה מְלִיךְ כְּמֹהוּ וְאֶהוּב הָיָה לְאֵלֶּהוּ אֶתְנָהוּ אֵלֶּהִים מְלִיךְ עַל-  
 समस्त-पर राजा परमेश्वर-ने और-बनाया-उसे जो-था अपने-परमेश्वर-का और-प्रिय उसके-समान राजा था  
 H4428 H0430 H5414 H1961 H0430 H0157 H3644 H4428 H1961

כָּל-יִשְׂרָאֵל גַּם-אוֹתוֹ הַחֲטָאִיו הַנְּשִׂים הַנְּכַרִּיּוֹת:  
 समस्त इस्राएल भी-उसे-तौभी उसे उसे-मैं-डाला पाप-में-डाला स्त्रियों-ने विदेशी  
 H3478 H0853 H1571 H2398 H0802 H5237 H3605

तुम जानते हो कि सुलैमान से इसी प्रकार के विवाहों ने पाप करवाया था। तुम जानते हो कि किसी भी राष्ट्र में सुलैमान जैसा महान कोई राजा नहीं हुआ। सुलैमान को परमेश्वर प्रेम करता था और परमेश्वर ने ही सुलैमान को समूचे इस्राएल का राजा बनाया था। किन्तु इतना होने पर भी विजातीय पत्नियों के कारण सुलैमान तक को पाप करने पड़े

וְלָכֵם הַנְּשִׂמָע לַעֲשֹׂת אֵת כָּל-הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת לְמַעַל 27  
 तब-तुम्हारी क्या-हम-सुनें करने-की करने-की को सारी बुराई यह विश्वासघात-करके  
 H8085 H0853 H3605 H0853 H3605 H2063 H4603

בְּאֵלֶּהֵינוּ לְהַשִּׁיב נָשִׁים נְכַרִּיּוֹת:  
 अपने-परमेश्वर-के-विरुद्ध ब्याह-करके स्त्रियों-से विदेशी  
 H0430 H3427 H0802 H5237

और अब क्या, हम तुम्हारी सुनें और वैसा ही भयानक पाप करें और विजाति औरतों के साथ विवाह करके अपने परमेश्वर के प्रति सच्चे नहीं रहे।”

וּמִבְּנֵי יוֹדָע בֶּן-אֵלְיָשִׁיב הַחֲנָן הַגָּדוֹל חָתָן לְסַנְבַּלֵּט הַחֲרָנִי 28  
 और-पुत्रों-में-से-एक योयादा-के पुत्र एल्याशीब-के याजक महान दामाद-था सन्बल्लत-का होरोनी  
 H3111 H0475 H3548 H2860 H5571 H2772

וְאֶבְרָיִיחָהּ מֵעָלָי:  
 इसलिए-मैंने-उसे-भगा-दिया अपने-पास-से  
 H1272

योयादा का एक पुत्र होरोनी के सम्बल्लत का दामाद था। योयादा महायाजक एल्याशीब का पुत्र था। सो मैंने योयादा के उस पर दबाव डाला कि वह मेरे पास से भाग जाये।

זָכְרָה לָהֶם אֵלֶּהֵי עַל נְאֻלִי הַחֲנָנִה וּבְרִית יַאֲזֵקֶנָה 29  
 स्मरण-कर उन्हें मेरे-परमेश्वर क्योंकि मैंने-अपवित्र-किया-है याजकपन-को और-वाचा याजकपन-का  
 H2142 H1992 H0430 H1352 H3550 H1285 H3550

וְהַלְוִיִּם:  
 और-लेवियों-का  
 H3881

हे मेरे परमेश्वर! उन्हें याद रख क्योंकि उन्होंने याजकपन को भ्रष्ट किया था। उन्होंने याजकपन को ऐसा बना दिया था जैसे उसका कोई महत्व ही न हो। तूने याजकों और लेवियों के साथ जो वाचा की थी, उन्होंने उसका पालन नहीं किया।

וְטָהַרְתִּים מִכָּל-גֹּבַר וְאֶעֱמִידָה מִשְׁמֶרֶת לְכַהֲנִים וְלֵוִיִּם 30  
 शुद्ध-किया ऐसे-मैंने-उन्हें-शुद्ध-किया सब-कुछ-से विदेशी और-मैंने-ठहराया कर्तव्य याजकों-के-लिए और-लेवियों-के-लिए  
 H2891 H3605 H5236 H5975 H4931 H3548 H3881

בְּמִלְאֲכָתוֹ: אִישׁ  
 अपनी-सेवा-में प्रत्येक-को  
 H4399 H0376

सो मैंने हर किसी बाहरी वस्तु से याजकों और लेवियों को पवित्र एवं स्वच्छ बना दिया है तथा मैंने प्रत्येक पुरुष को उसके अपने कर्तव्य और दायित्व भी सौंपे हैं।

मैंने लकड़ी के उपहारों और एक निश्चित समय पर पहले फलों को लाने सम्बन्धी योजनाएँ भी बना दी हैं। हे मेरे परमेश्वर! इन अच्छे कामों के लिये तू मुझे याद रख।